

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा -षष्ठ

दिनांक -20-07-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज सार्वनामिक विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे ।

सार्वनामिक विशेषण

संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा

जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।

दूसरे शब्दों में- (मैं, तू, वह) के सिवा अन्य सर्वनाम जब किसी संज्ञा के पहले आते हैं, तब वे 'संकेतवाचक' या 'सार्वनामिक विशेषण' कहलाते हैं।

सरल शब्दों में- वे सर्वनाम जो संज्ञा से पूर्व प्रयुक्त होकर उसकी ओर संकेत करते हुए विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, 'संकेतवाचक विशेषण' कहलाते हैं।

जैसे-

- वह गाय दूध देती है।
- यह पुस्तक मेरी है।

उक्त वाक्यों में 'वह' सर्वनाम 'गाय' संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में 'यह' सर्वनाम 'पुस्तक' से पूर्व आकर उसकी ओर संकेत कर रहा है। ये

दोनों सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयुक्त हुए हैं, अतः इन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।

ये लड़के, कोई स्त्री, कौन-सा फूल, वे कुर्सियाँ आदि में ये, कोई, कौन-सा, वे- सार्वनामिक विशेषण हैं।

सार्वनामिक विशेषण के भेद

व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद हैं-

- मौलिक सार्वनामिक विशेषण
- यौगिक सार्वनामिक विशेषण

मौलिक सार्वनामिक विशेषण- जो बिना रूपान्तर के संज्ञा के पहले आता है।

जैसे- 'यह' घर; वह लड़का; 'कोई' नौकर इत्यादि।

यौगिक सार्वनामिक विशेषण- जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं।

जैसे- 'ऐसा' आदमी; 'कैसा' घर; 'जैसा' देश इत्यादि।

गृहकार्य

- (1) सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं?
- (2) सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद होते हैं?
- (3) मौलिक सार्वनामिक विशेषण को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

लिखकर याद करेंगे।